



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITYसं. 558]
No. 558]नई दिल्ली, बुधवार, दिसम्बर 19, 2007/अग्राहायण 28, 1929
NEW DELHI, WEDNESDAY, DECEMBER 19, 2007/AGRAHAYANA 28, 1929

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 19 दिसम्बर, 2007

सं. 38/2007-केन्द्रीय उत्पाद शुल्क

सा.का.नि. 782(अ).—केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 15 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, एतद्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1985 (1986 का 5) को प्रथम अनुसूची की टैरिफ मद 21069020 के अंतर्गत आने वाला उत्पाद शुल्क योग्य वस्तुओं जिनके नाम पान मसाला तथा टैरिफ मद 24039990 के अंतर्गत आने वाले तम्बाकू युक्त पान मसाला जो सामान्यतया गुटखा के नाम से जाना जाता है (इसमें आगे विनिर्दिष्ट वस्तुओं के रूप में संदर्भित), को विनिर्दिष्ट करती है, पाउच भरने वाली तथा पैकिंग मशीन (इसमें आगे पैकिंग मशीन के रूप में संदर्भित) की सहायता से पाउचों को भरने एवम् पैकिंग करने की प्रक्रिया, जिसके संबंध में निर्धारिती के पास उसके परिसर में विनिर्दिष्ट वस्तुओं की पैकिंग के लिए स्थापित पैकिंग मशीनों की संख्या के आधार पर उत्पाद शुल्क का भुगतान करने का विकल्प होगा तथा निम्नलिखित तालिका में यथा विनिर्दिष्ट ऐसे पाउचों पर मुद्रित खुदरा बिक्री मूल्य पर आधारित, प्रति पैकिंग मशीन प्रतिमाह शुल्क की दर निर्धारित करता है :-

तालिका

क्र. सं.	खुदरा बिक्री मूल्य (प्रति पाउच)	प्रति पैकिंग मशीन प्रतिमाह शुल्क की दर (रुपए लाखों में)	पान मसाला तम्बाकू युक्त (क) पान मसाला (ख)
1.	रुपए 1.50	10	12
2.	रुपए 1.51 से रुपए 2.00 तक	12	16
3.	रुपए 2.01 से रुपए 3.00 तक	20	26
4.	रुपए 3.01 से रुपए 4.00 तक	23	31
5.	रुपए 4.01 से रुपए 5.00 तक	29	38
6.	रुपए 5.01 से रुपए 6.00 तक	34	45

व्याख्या : इस अधिसूचना के उद्देश्य के लिए, यदि मल्टीपल ट्रेक अथवा मल्टीपल लाइन पैकिंग मशीन है, तो शुल्क देनदारी की गणना के उद्देश्य के लिए प्रत्येक ऐसा ट्रेक अथवा लाइन को एकल मशीन समझा जाएगा।

परन्तु विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त किसी निवेश, पूंजीगत वस्तुएं अथवा निवेश सेवाओं पर अदा किए गए शुल्क का कोई सेनवैट क्रेडिट, सेनवैट क्रेडिट नियम, 2004 के अंतर्गत नहीं लिया जाएगा और इस अधिसूचना के अंतर्गत देय शुल्क की पूरी धनराशि को केवल नगद भुगतान करना होगा :

परन्तु आगे कि इसमें आगे उल्लिखित प्रक्रिया तथा शर्तों का पालन किया जाता है :

1. विशेष प्रक्रिया का लाभ उठाने के लिए आवेदन—

- (i) विनिर्माता इस अधिसूचना के परिशिष्ट-1 में यथा विनिर्दिष्ट फार्म में उसकी फैक्टरी में स्थापित पैकिंग मशीनों का ब्योरा तथा अन्य विवरण देते हुए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकारी सहायक आयुक्त अथवा उपायुक्त को जैसा भी मामला हो को एक आवेदन करेगा, और उक्त सहायक उपायुक्त अथवा उपायुक्त जिस अवधि के संबंध में आवेदन किया गया है उसकी अनुमति प्रदान कर सकते हैं:

परन्तु, यदि उक्त अनुमति आवेदन पत्र की प्राप्ति से अगले दो कार्यदिवसों तक स्वीकृत अथवा अस्वीकृत नहीं की जाती है, जो अनुमति प्रदान की गई समझा जाएगा।

- (ii) पहली बार विशेष प्रक्रिया को चुनने वाला विनिर्माता इस प्रकार से आवेदन करेगा कि जिस वित्त वर्ष में आवेदन किया जा रहा है, उस वित्तीय वर्ष के अंत तक की अवधि समाहित हो सके, इसके बाद, उक्त प्रक्रिया को अपनाने के विकल्प का प्रयोग वित्तीय वर्ष के प्रारम्भ होने से पूर्व करना होगा तथा ऐसा विकल्प, एक बार प्रयोग करने पर, वित्तीय वर्ष के शेष भाग में वापस नहीं लिया जाएगा।

- (2) गणना का तरीका तथा कुछ धनराशि के भुगतान पर शुल्क देनदारी चुकाना—(i) विनिर्माता, जिसको पैराग्राफ 1 के अंतर्गत अनुमति प्रदान की गई है, इस अधिसूचना में विनिर्दिष्ट दर पर परिगणित राशि का भुगतान इसमें निर्धारित शर्तों के अधीन करेगा, तथा ऐसा भुगतान, जिस अवधि के लिए उक्त राशि अदा की गई है, उसके दौरान उक्त परिसर से विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण पर उद्ग्रहणीय शुल्क के लिए उसकी देनदारी पूरी चुकता मानी जाएगी। परन्तु यदि इस अधिसूचना के अंतर्गत शुल्क की दर में संशोधन होता है, देय राशि की संशोधन दर के आधार पर संशोधन की तिथि से पुनर्गणना होगी, और यदि अन्तरिम शुल्क का भुगतान नहीं किया जाता है तो उस तिथि से विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण पर उद्ग्रहणीय शुल्क देनदारी से अवमुक्त नहीं होगा और यदि इस प्रकार से पुनः परिगणित शुल्क राशि भुगतान की गई राशि से कम है, तो शेष राशि विनिर्माता को वापस कर दी जाएगी।

परन्तु आगे कि, इस अधिसूचना में निहित प्रक्रिया को अपनाने के लिए यदि कोई विनिर्माता पैराग्राफ 1 के अंतर्गत पहली बार आवेदन करता है, जिस माह में आवेदन स्वीकृत हुआ है उस माह के लिये शुल्क देनदारी की गणना आनुपातिक आधार पर, माह में कुल दिनों की संख्या तथा उक्त राशि के भुगतान की तिथि से माह में शेष दिनों की संख्या के आधार पर की जाएगी।

- (ii) उप पैराग्राफ (i) के अंतर्गत देय राशि की गणना ऐसे विनिर्माता द्वारा उसके परिसर में कलैण्डर माह के पहले दिन स्थापित पैकिंग मशीनों (उनको छोड़कर जिन्हें केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा सील किया गया है) की संख्या पर समुचित दर लगा कर की जाएगी।

- (iii) उप-पैराग्राफ (i) के अंतर्गत देय राशि का भुगतान प्रत्येक माह के आरम्भ होने से पूर्व किया जाएगा तथा परिशिष्ट-II में विनिर्दिष्ट फार्म में सूचना माह प्रारम्भ होने से पूर्व केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के क्षेत्राधिकार अधीक्षक को प्रस्तुत की जाएगी।

- (iv) परिसर में लगी हुई सभी पैकिंग मशीनों का प्रयोग केवल समान खुदरा बिक्री मूल्य की विनिर्दिष्ट वस्तुओं के विनिर्माण के लिए किया जाएगा :

परन्तु उच्च खुदरा बिक्री मूल्य उत्पाद के लिए लागू प्रति मशीन ड्यूटी दर पूरे कलैण्डर माह के लिए सभी पैकिंग मशीनों पर देय होगी। यदि उच्च खुदरा बिक्री मूल्य की किसी वस्तु का उक्त परिसरों में विनिर्माण हुआ पाया जाता है।

- (v) किसी भी कारण से किसी पैकिंग मशीन के कार्य न करने के मामले में पूर्ण कलैण्डर माह के लिए शुल्क देय होगा।

- (vi) इस अधिसूचना के अंतर्गत देय राशि की गणना कलैण्डर माह के दौरान किसी दिन में स्थापित पैकिंग मशीनों की अधिकतम संख्या के आधार पर, माह के दौरान मशीनों की वृद्धि अथवा हटाने पर ध्यान न देते हुए की जाएगी तथा अन्तरीय धनराशि, यदि कोई हो, माह की समाप्ति से पूर्व देय होगी।

3. देय राशि में चूक.—यदि विनिर्माता, जिसे पैराग्राफ 1 के अंतर्गत अनुमति प्रदान की गई है पैराग्राफ 2 के उप पैराग्राफ (iii) में यथा संदर्भित देय राशि का भुगतान नहीं करता, और किसी पैकिंग मशीन का प्रचालन चालू रखता है, उसके द्वारा जिस माह में अन्तिम बार शुल्क का भुगतान किया गया है उस माह में घोषित पैकिंग मशीनों की संख्या अथवा उक्त अवधि के दौरान उसके परिसरों में लगी पाई गई पैकिंग मशीनों की संख्या जो भी अधिक हो, के आधार पर वित्तीय वर्ष के शेष महीनों के लिए उक्त राशि अदा करने के लिए जिम्मेदार होगा और चूक की अवधि के दौरान उक्त विनिर्माता द्वारा विनिर्माण की गई विनिर्दिष्ट वस्तुओं को जब्त किया जाएगा तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 में यथाविहित परिणाम तथा दण्ड अनुगामी होंगे।

4. पैकिंग मशीन में वृद्धि अथवा हटाना.—यदि विनिर्माता अपने परिसर में पैकिंग मशीन की वृद्धि करना अथवा हटाना चाहता है तो इस उद्देश्य के लिए अधिकृत केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी के व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अंतर्गत ही ऐसा करने की अनुमति होगी:

परन्तु, फैक्टरी परिसर के बाहर उक्त पैकिंग मशीन को हटाने के मामले में, इसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा सीलबन्द किया जाएगा:

परन्तु आगे कि, यदि जो पैकिंग मशीन चालू हालत में नहीं है उसे फैक्टरी परिसर से बाहर हटाना सम्भव न हो तो इसे केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा इस प्रकार से सीलबन्द किया जाएगा कि इसका प्रचालन न हो सके ;

परन्तु यह भी कि माह के दौरान फैक्टरी परिसर से हटाई गई अथवा सील की गई पैकिंग मशीनों के संबंध में पूरे कलैण्डर माह के लिए शुल्क देय होगा।

5. निर्यात.—ऐसी शर्तें, जैसा कि इस संबंध में केन्द्र सरकार अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट कर सकती है, के अनुसार छोड़कर, परिसर में विनिर्मित विनिर्दिष्ट वस्तुओं, जिनके लिए इस अधिसूचना के अन्तर्गत विशेष प्रक्रिया का लाभ लिया गया है तथा भारत में बाहर निर्यात किया गया है, के संबंध में केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 18 के अन्तर्गत उत्पाद शुल्क की कोई छूट प्रदान नहीं की जाएगी।

6. काम बन्द कर चुकी फैक्टरियों के संबंध में प्रावधान.—इस अधिसूचना में कोई चीज होने पर, जहां एक विनिर्माता जिसने इस अधिसूचना में निहित प्रक्रिया का लाभ लिया, फैक्टरी में लगी हुई सभी मशीनों के संबंध में काम बन्द कर देता है तथा जिसने इस उद्देश्य के लिए सूचना दायर कर दी है, माह के लिए उसके द्वारा देय शुल्क की गणना उक्त माह में कुल दिनों की संख्या तथा उक्त सूचना दायर करने से पूर्व कुल दिनों की संख्या के आधार पर आनुपातिक आधार पर की जाएगी तथा अधिसूचना के अनुसार माह के लिए पहले ही अदा की जा चुकी धनराशि का समायोजन इस प्रकार परिगणित शुल्क के साथ किया जाएगा तथा ऐसे समायोजन पर, यदि कोई अधिक भुगतान है, उसे विनिर्माता को वापस कर दिया जाएगा, कभी, यदि कोई है, को उससे वसूल किया जाएगा।

स्पष्टीकरण : इस पैराग्राफ के उद्देश्य से, एक विनिर्माता जो अपनी फैक्टरी को सिर्फ एक या दो शिफ्ट चलाना बन्द करता है, तो काम बन्द करना नहीं समझा जाएगा।

7. जब्ती एवं जुर्माना.—यदि कोई विनिर्माता विशिष्ट वस्तुओं के संबंध में इस अधिसूचना के किसी प्रावधान का उल्लंघन करता है, तो ऐसी सभी वस्तुएं जप्त की जाएंगी तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 25 के अन्तर्गत विनिर्माता को जुर्माना किया जाएगा।

8. इसमें यथाविहित के अलावा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 तथा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क, 2002 के सभी प्रावधानों, बकाया की वसूली एवं देय ब्याज से संबंधित सहित आवश्यक परिवर्तन सहित लागू होंगे।

[फा. सं. 81/17/2007-के.उ.शु. 3]

दिलीप गोयल, अवसर सचिव

परिशिष्ट-I

पान मसाला अथवा तम्बाखू युक्त पान मसाला (गुटखा) से संबंधित विशेष प्रक्रिया का लाभ उठाने की अनुमति के लिए आवेदन

(केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 15 के अन्तर्गत) विनिर्माता का नाम :

विनिर्माण परिसर का पता :

ई सी सी संख्या :

उपयुक्त उत्पाद के विनिर्माण के अन्य परिसरों का पता :

मैं/हम पान मसाला या तम्बाखू युक्त पान मसाला के विनिर्माता, निवासी तालुका/तहसील-जिला एतद्वारा केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002 के नियम 15 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या के प्रावधानों के अन्तर्गत, मेरे/हमारे उपरोक्त परिसरों में आरम्भ तथा समाप्त 20, अवधि के दौरान ऐसी वस्तुओं के विनिर्माण एवं ले जाने के सम्बन्ध में विशेष प्रक्रिया का लाभ लेने के लिए आवेदन करते हैं।

मैं/हम आगे घोषणा करते हैं कि निम्नलिखित विवरणों के ऊपर लिखित परिसर में पाउच पैकिंग मशीन प्रयोग की जाएगी अथवा मेरे द्वारा प्रयोग किया जाएगा एवं उक्त अधिसूचना में दिए गए प्रावधान की शर्तों में, मेरे द्वारा देय सभी देय शुल्क के भुगतान करने की जिम्मेदारी लेता हूं।

क्रम संख्या	मशीन का पैकिंग मशीन	विनिर्माण	विनिर्माण
	मैक तथा की संख्या	किए जाने	किए जाने
	मॉडल	वाली	वाले पाउच
		वस्तुओं का	का खुदरा
		विवरण	बिक्री मूल्य

मैं/हम आगे वचन देते हैं कि पैकिंग मशीन की कोई वृद्धि अथवा हटाया जाना जैसा कि अधिसूचना में दिए गए नियमानुसार व्यक्तिगत पर्यवेक्षण के अन्तर्गत की जाएगी।

2. मैं/हम एतद्वारा समस्त उक्त अवधि के लिए उक्त अधिसूचना में दिए गए प्रावधानों एवं शर्तों का पालन करने के लिए सहमत हैं।

स्थान :

दिनांक :

विनिर्माता अथवा उनके अधिकृत एजेंट का नाम, आवासीय पता एवं हस्ताक्षर

परिशिष्ट-II

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 2002, के नियम 15 के अन्तर्गत जारी अधिसूचना संख्या के अन्तर्गत पान मसाला या तम्बाखू युक्त पान मसाला के विनिर्माता द्वारा इयूटी के भुगतान की सूचना।

विनिर्माता का नाम :

विनिर्माण परिसर का पता :

ई सी सी सं. :

मैं/हम एतद्वारा घोषणा करते हैं कि निम्नांकित विवरणानुसार हमने माह की देय शुल्क (इयूटी) के किए, रुपए का भुगतान कर दिया है :

(i) फैक्टरी में लगाए गए पैकिंग मशीन की संख्या।

(ii) थैले (पाउच) का खुदरा विक्रय मूल्य।

(iii) ड्यूटी भुगतान का विवरण ।

भुगतान की तारीख बैंक एवं शाखा का भुगतान किए गए ड्यूटी
नाम तथा पता की राशि

बैंक चालान की प्रतिलिपि संलग्न है :

()

स्थान :

तारीख :

विनिर्माता या उनके प्राधिकृत एजेंट का नाम, आवासीय पता एवं
हस्ताक्षर

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATION

New Delhi, the 19th December, 2007

No. 38/2007-Central Excise

G.S.R. 782(E).—In exercise of the powers conferred by rule 15 of the Central Excise Rules, 2002, the Central Government hereby specifies the excisable goods, namely, pan masala falling under tariff item 210 6 90 20 and pan masala containing tobacco, commonly known as gutkha, falling under tariff item 2403 99 90 of the First Schedule to the Central Excise Tariff Act, 1985 (5 of 1986) (hereinafter referred to as the specified goods), subjected to the process of filling and packing in pouches with the aid of pouch filling and packing machine (hereinafter referred to as the packing machine), in respect of which an assessee shall have an option to pay the duty of excise on the basis of number of packing machine installed for packing of specified goods in his premises and fixes the rate of duty per packing machine per month, based on retail sale price printed on such pouches as specified in the Table below :

TABLE

Sl. No.	Retail sale price (per pouch)	Rate of duty Per packing machine per month
No.		(Rs. in Lakh)
(1)	(2)	(3)
	Pan masala	Pan masala containing tobacco
	(a)	(b)
1.	Upto Rs. 1.50	10
2.	From Rs. 1.51 to Rs. 2.00	12
3.	From Rs. 2.01 to Rs. 3.00	20
4.	From Rs. 3.01 to Rs. 4.00	23
5.	From Rs. 4.01 to Rs. 5.00	29
6.	From Rs. 5.01 to Rs. 6.00	34

Explanation.—For the purposes of this notification, if there are multiple track or multiple line packing machine, each of such track or line shall be deemed to be an individual machine for the purposes of calculation of the duty liability :

Provided that no CENVAT credit of duty paid on any input, capital goods or input services used for manufacture of the specified goods shall be taken under the CENVAT Credit Rules, 2004 and the full amount of duty payable under this notification would be paid in cash only :

Provided further that the procedure and conditions mentioned hereinafter are followed :

1. Application to avail special procedure.—(i) The manufacturer shall make an application giving the details of the packing machine installed in his factory and other particulars in the form as specified in Appendix-I to this notification to the jurisdictional Assistant Commissioner or Deputy Commissioner of Central Excise, as the case may be, and the said Assistant Commissioner or Deputy Commissioner may grant permission for the period in respect of which the application has been made :

Provided that if the said permission is not granted or rejected within next two working days of receipt of application, the permission shall be deemed to have been granted.

(ii) The manufacturer opting for the special procedure for the first time shall make the application so as to cover the period up to the end of the financial year in which the application has been made, thereafter, the option to avail the said procedure shall be exercised before the start of the financial year and such option, once exercised, shall not be withdrawn during the remaining part of the financial year.

2. Manner of calculation and discharge of duty liability on payment of certain sum.—(i) The manufacturer to whom permission has been granted under paragraph 1 shall pay a sum calculated at the rate specified in this notification, subject to the conditions herein laid down, and such payment shall be in full discharge of his liability for duty leviable on manufacture of specified goods from the said premises during the period for which the said sum has been paid :

Provided that if there is revision in the rate of duty under this notification, the sum payable shall be recalculated on the basis of the revised rate, from the date of revision and liability for duty leviable on the manufacture of specified goods from that date shall not be discharged unless the differential duty is paid and in case the amount of duty so recalculated is less than the sum paid, the balance shall be refunded to the manufacturer :

Provided further that when a manufacturer makes an application for the first time under paragraph 1 for availing of the procedure contained in this notification, the duty liability for the month in which the application is granted

shall be calculated *pro-rata* on the basis of the total number of days in that month and the number of days remaining in the month from the date of payment of said sum.

(ii) The sum payable under sub-paragraph (i) shall be calculated by application of the appropriate rate to the number of packing machines installed (other than those which have been sealed by the Central Excise Officer) by such manufacturer in his premises on the first day of the calendar month.

(iii) The sum payable under sub-paragraph (i) shall be paid before the commencement of each month and an intimation in the form specified in the Appendix II shall be filed to the Jurisdictional Superintendent of Central Excise before the commencement of the month.

(iv) All packing machines installed in a premise shall be used for manufacture of specified goods of same retail sale price only:

Provided that duty rate per machine applicable for higher retail sale price product shall be payable for all packing machines for full calendar month, in case any goods of higher retail sale price are found to have been manufactured in the said premises.

(v) In case of non-working of any packing machine for any reason whatsoever, the duty for full calendar month shall be payable.

(vi) The sum payable under this notification shall be calculated based upon the maximum number of packing machines installed on any day during the calendar month, irrespective of addition or removal of machines during the month and differential amount, if any, shall be payable before the end of the month.

3. Default in sum payable.—In case a manufacturer who has been granted permission under paragraph 1 does not pay the sum payable as referred to in sub-paragraph (iii) of paragraph 2 and continues to operate any packing machine, he shall be liable to pay the said sum for the remaining months of the financial year based on number of packing machines declared in the month for which duty was last paid by him or number of packing machines found installed in his premises during the said period, whichever is higher and during the period of default, the specified goods manufactured by the said manufacturer shall be liable for confiscation and consequences and penalties as provided in the Central Excise Rules, 2002 shall follow.

4. Addition or removal of packing machine.— In case a manufacturer wants to add or remove a packing machine from his premises, the same shall be permitted under the physical supervision of a Central Excise Officer, authorised for the purpose:

Provided that in case of removal of the said packing machine out of the factory premises, the same shall be sealed by the Central Excise Officer:

Provided further that in case it is not feasible to remove the packing machine which is not in working condition, out of the factory premises, it shall be sealed by a Central Excise Officer in the manner that these cannot be operated:

Provided also that duty for the full calendar month shall be payable in respect of packing machines removed from the factory premises or sealed during the month.

5. Exports.—Except in accordance with such terms and conditions as the Central Government may by notification specify in this behalf, no rebate of excise duty shall be granted under rule 18 of the Central Excise Rules, 2002, in respect of specified goods manufactured in the premises for which special procedure under this notification has been availed and exported out of India.

6. Provision regarding factories ceasing to work.— Notwithstanding anything contained in this notification, where a manufacturer who had availed the procedure contained in this notification ceases to work in respect of all the machines installed in the factory and who has filed an intimation for this purpose, the duty payable by him for the month shall be calculated *pro rata* on the basis of the total number of days in the said month and total number of days before filing the said intimation and the amount already paid for the month in accordance with the notification shall be adjusted towards the duty so calculated and on such adjustment, if there is any excess payment, it shall be refunded to the manufacturer and deficiency, if any, shall be recovered from him.

Explanation.—For the purposes of this paragraph, a manufacturer, who ceases to operate his factory for one or two shifts only, shall not be deemed to have ceased to work.

7. Confiscation and penalty.—If any manufacturer contravenes any provision of this notification in respect of specified goods, then all such goods shall be liable to confiscation, and the manufacturer shall be liable to penalty under rule 25 of the Central Excise Rules, 2002.

8. Except as herein provided, all provisions of the Central Excise Act, 1944 and the Central Excise Rules, 2002, including those relating to recovery of dues and interest payable shall apply *mutatis-mutandis*.

[F. No. 81/17/2007-Cx.3]

DILIP GOYAL, Under Secy.

Appendix-I

Application for permission to avail of the special procedure relating to pan masala and pan masala containing tobacco (Gutkha).
(Under Rule 15 of the Central Excise Rules, 2002)

2-5039 GI/07

Name of the manufacturer :

Address of the manufacturing premise:

ECC No :

Address of other premises manufacturing the same products:

I/We manufacturer of pan masala or pan masala containing tobacco, residing at.....taluka/tehsildistrict.....hereby apply to avail of the special procedure in respect of the manufacture and removal of such goods at my/our above mentioned premise during the period beginning withand ending with20., under the provisions of Notification No.....CE datedissued under rule 15 of the Central Excise Rules, 2002.

I/We further declare that pouch packing machine of following particulars shall be used or are used by me in the above mentioned premise and I undertake to pay the total duty payable by me in terms of the provisions laid down in the said Notification.

S. No.	Make and model of machine	No. of packing machines	Description of goods to be manufactured	Retail sale price of the pouches to be manufactured
--------	---------------------------	-------------------------	---	---

I/We further undertake that any addition or removal of the packing machine would be done under the physical supervision of the Central Excise Officer as per the procedure provided in the notification.

2. I/We hereby agree to abide by the provisions and conditions of the said notifications throughout the said period.

Place :

Date:

Name, residential address and signature of manufacturers or his/their authorised agent.....

Appendix-II

Intimation of payment of duty by the manufacturer of pan masala or pan masala containing tobacco under Notification No. issued under Rule 15 of the Central Excise Rules, 2002

Name of the manufacturer:

Address of the manufacturing premise:

ECC No. :

I/We hereby declare that we have paid a sum of Rs., toward the duty liability for the month of, as per particulars given below :

- (i) No. of packing machines installed in factory
- (ii) Retail Sale Price of the pouches
- (iii) Duty payment particulars

Date of payment	Name and address	Amount of duty
	of the Bank and branch	paid

Copies of bank challans are enclosed

()

Place :

Date :

Name, residential address and signature of manufacturers or his/their authorised agent.